



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1977/साघ 2, 1898

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1977/MAGHA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 22nd January 1977

**G.S.R. 26(F).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976), and in supersession of the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) Nos. 377-Customs, dated the 16th July, 1976, and 390-Customs, dated the 2nd August, 1976, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts palm oil, rapeseed oil, soyabean oil and sun-flower oil, falling within Chapter 15 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from—

- (a) the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, and
- (b) the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 32 of the said Finance Act

[No. 13/F. No. 355/18/77-Cus.I]

## राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचनाएं

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1977

सा०का०नि० 26(अ) —वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उप-धारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 377-सीमा-शुल्क, तारीख 16 जुलाई, 1976 तथा 390-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इस अधिसूचना द्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 15 के अन्तर्गत सम्मिलित ताड़ के तेल, खेत सरसों के तेल, सोयाबीन के तेल और सूरजमुखी के तेल को, तब जब भारत में उसका आयात किया जाए,—

(क) उन पर उद्ग्रहणीय उस समस्त सीमा-शुल्क से जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, और

(ख) उक्त वित्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमा-शुल्क से,

छूट देती है।

[स० 13/का० सं० 355/18/77-सीमा-शुल्क I]

G.S.R. 27(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts palm seeds, rapeseeds, soyabean seeds, sun-flower seeds and groundnut seeds, falling within Chapter 12 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from—

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule; and

(b) the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 32 of the said Finance Act.

[No. 14/F. No 355/18/77-Cus.I]

सा०का०नि० 27 (अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), की प्रथम अनुसूची के अध्याय 12 के अन्तर्गत सम्मिलित ताड़ के बीज, खेत सरसों, सोयाबीन के बीज, सूरजमुखी के बीज और मूंगफली के बीज को जब उनका आयात भारत में किया जाए—

(क) उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क से जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ; और

(ख) उक्त वित्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमा-शुल्क से छूट देती है ।

[सं० 14 फा० सं० 355/18/77-सीमा-शुल्क I]

**G.S.R. 28(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 135-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely —

In the Table annexed to the said notification, Serial No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted

[No. 15/F. No. 355/18/77-Cus.I]

M. JAYARAMAN, Under Secy

**सा० का० नि० 28 (ख).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 135 सी० शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[सं० 15/फा० सं० 355/18/77-सीमा-शुल्क I]

एम० जयरामन, अव्वर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा निर्यन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

